



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 अप्रैल, 2023

चैत्र 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 6/2023/321/94-स्टा०नि०-2-2023

लखनऊ, 12 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-235

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ नई इकाई की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर-4.2 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
4.2	जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना हेतु अथवा फीडस्टॉक संग्रहण तथा भण्डारण हेतु निजी काश्तकारों से पट्टा या क्रय के माध्यम से भूमि अर्जन के निमित्त किराया विलेख/पट्टा/विक्रय विलेख /रजिस्ट्रीकरण पर संदेय स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट का उपबंध किया जायेगा।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण में और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्येधीन प्रदान की जाती है:-

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख **उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022** के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2-आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० के पक्ष में स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय निबंधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की अवधि परियोजना पूर्ण करने हेतु नीति में यथाविहित अवधि से कम अवधि नहीं होनी चाहिए।

3-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

4-इस अधिसूचना के अधीन दी गयी छूट और बैंक प्रत्याभूति की अवमुक्ति/जब्त की क्रियान्वयन की प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त इस विभाग द्वारा यथा सम्भव शीघ्र जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
लीना जौहरी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 6/2023/321/XCIV-S.R.-2-2023 dated April 12, 2023 :

No. 6/2023/321/ XCIV-S.R.-2-2023

*Dated Lucknow, April 12, 2023*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this notification in the *Gazette*, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit under the **Uttar Pradesh State Bio-Energy Policy, 2022**, in accordance with the Para 4.2 of the aforesaid Policy, for the purposes of the objectives specified therein, to the limit as mentioned in Column-3 of the table below in relation to the Instrument as shown in Column-4.

Para of Uttar Pradesh State Bio-Energy Policy, 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
4.2	Acquisition of land through lease or purchase from private tenants for setting up of bio-energy enterprises/plants or feedstock collection and storage, 100% exemption of stamp duty payable on rent deed/lease/sale deed/registration will be provided.	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Lease of Article-35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act,1899.

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:-

1-The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh State Bio-Energy Policy, 2022** and also signs as a witness for the said purpose.

2-Irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the Commissioner Stamp, Uttar Pradesh shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee should not be less than the period, as prescribed in the policy, for the completion of project.

3-The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

4-Guidelines regarding the procedure of implementation of exemption given under this notification and release / forfeit of bank guarantee shall be issued by this department as soon as possible.

By order,  
LEENA JOHRI,  
*Pramukh Sachiv.*